

3 तीसरा दिन

rd Day

भावबोधक (Exclamation)

अंग्रेज़ी में मन के अलग-अलग भावों को प्रकट करने का अपना ही तरीका है। यह सरल भी है और सुन्दर भी। हैरानी, खुशी, दुख, नाराज़गी और भी दूसरे कई भावों को छोटे-छोटे वाक्यों व दो-तीन शब्दों में बहुत अच्छे ढंग से कहा जा सकता है। इन शब्दों और वाक्यों का हम आम बोलचाल में बार-बार प्रयोग कर सकते हैं।

1. वाह, वाह !
2. शाबाश !
3. अति सुन्दर !
4. अरे !
5. वाह !
6. हे राम !
7. आपने तो कमाल कर दिया !
8. बेशक !
9. ईश्वर का धन्यवाद !
10. ईश्वर की कृपा से !
11. खुदा आपको बरकत दे !
12. आपको भी !
13. बहुत बढ़िया !
14. बड़े दुख का समाचार !
15. बड़ी खुशी का समाचार !
16. कितनी बड़ी विजय !
17. प्रभु मेरे ! (आश्चर्य में)
18. सुनिए !
19. फटाफट करिए !
20. कितनी बुरी बात !
21. कितने अपमान की बात है !
22. बड़ी फिजूल बात है !
23. उसकी इतनी हिम्मत !
24. क्या खूब !
25. कितना सुन्दर !
26. ऐसा कहने की तुम्हें हिम्मत कैसे हुई !
27. प्यारे !
28. जल्दी चलो !

Marvellous! मार्वलस !
 Well done! वेल डन !
 Beautiful! ब्यूटिफुल !
 Hey! हे !
 Wow! वाउ !
 My/Oh God ! माइ/ओ गॉड !
 Wonderful ! वन्डरफुल
 Of course ! ऑफ कोर्स !
 Thank God ! थैंक गॉड !
 By God's grace ! बाइ गॉड्स ग्रेस !
 May God bless you ! मे गॉड ब्लेस यू !
 Same to you ! सेम टु यू !
 Excellent ! एक्सीलेन्ट !
 How sad ! हाउ सैड !
 That is a good news ! दैट इज़ अ गुड न्यूज़ !
 What a great victory ! वॉट ए ग्रेट विक्ट्री !
 Good heavens ! गुड हेवन्ज़ !
 Hello ! Listen ! हलो ! लिसिन !
 Hurry up, please ! हरी अप, प्लीज़ !
 How terrible ! हाउ टैरिबल !
 How disgraceful ! हाउ डिस्ग्रेसफुल !
 How absurd ! हाउ एब्सर्ड !
 How dare he ! हाउ डेअर ही !
 How sweet ! हाउ स्वीट !
 How lovely ! हाउ लवली !
 How dare you say that ! हाउ डेअर यू से दैट !
 Oh dear ! ओ डियर !
 Hurry up ! हरी अप ! वॉक फ़ास्ट !

29. चुप रहिए!
30. हां, ऐसा ही!
31. सचमुच!
32. सच!
33. धन्यवाद!
34. आपका धन्यवाद!
35. भगवान का लाख शुक्र है!
36. यह दिन बार-बार आए!
37. आहा! मैंने मैच जीत लिया!
38. आपके स्वास्थ्य के लिए!
39. बधाई!
40. कितनी बेहूदगी है!
41. कितनी शर्म की बात है!
42. कितनी दुःखद बात है!
43. कितना सुखद आश्चर्य!
44. आश्चर्यजनक!
45. छिः छिः!
46. खबरदार!
47. कितने दुख की बात है!
48. कितनी बढ़िया सूझ है!
49. आपका स्वागत है!
50. आपके स्वागत के लिए!
51. क्या मुसीबत है!
52. सावधानी से/संभल कर!
53. कहीं नज़र न लगे!
54. अब चाहे जो हो!

Quiet, please/Please keep quiet ! क्वायट प्लीज़ ! प्लीज़ कीप क्वायट !
Yes, it is ! येस इट इज़ !
Really ! रिअली !
Is it ! इज़ इट !
Thanks ! थैंक्स !
Thank you ! थैंक यू !
Thank God ! थैंक गॉड !
Many happy returns of the day ! मैनी हैपी रिटर्न्स ऑफ़ द डे !
Hurrah ! I have won ! हुर्रे, आइ हैव वन !
For your good health ! फ़ॉर योर गुड हेल्थ !
Congratulations ! कॉंग्रेचुलेशन्ज़ !
What nonsense ! वॉट नॉनसेन्स !
What a shame ! वॉट अ शेम !
How tragic ! हाउ ट्रैजिक !
What a pleasant surprise वॉट अ प्लेजेन्ट सरप्राइज़ !
Wonderful ! वण्डरफुल !
How disgusting ! हाउ डिस्गस्टिंग !
Beware ! बीवेअर !
What a pity ! वॉट अ पिटी !
What an idea ! वॉट ऐन आइडिया !
Welcome sir ! वेल्कम सर !
Cheers ! चिअर्ज़ !
What a bother ! वॉट अ बॉदर !
Watch out ! वॉच आउट !
Touch wood ! टच वुड !
Come what may ! कम वॉट मे !

याद रखें (Remember)

- 1 . सामान्य वाक्य में जहां अल्पविराम (,) या पूर्ण विराम (।) लगता है, वहां भावबोधक वाक्य में विस्मयादि बोधक चिह्न (!) Exclamatory Sign लगता है, जैसे — Really! Wonderful ! आदि।
- 2 . लज्जा, दुःख, आश्चर्य, हर्ष, क्रोध आदि अनेकानेक भावों को प्रकट करने के लिए What, How आदि शब्दों का प्रयोग होता है, जैसे — What a shame! How wonderful ! आदि।
- 3 . विस्मयादिबोधक वाक्य (Exclamatory sentence) बोलते समय ध्वनि में आश्चर्य आदि भावों का स्वर देना चाहिए।